



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 215]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 24, 1978/श्रावण 2, 1900

No. 215]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 24, 1978/SRAVANA 2, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

निर्माण और आवास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1978

सा० का० नि० 378 (अ):—केन्द्रीय सरकार, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकरण अधिनियम, 1977 (1977 का 36) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:—

(क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकरण नियम, 1978 है;

(ख) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ:—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकरण अधिनियम, 1977 (1977 का 36) अभिप्रेत है;

(ख) “निर्धारण प्राधिकारी” से अभिप्रेत है,—

(1) किसी संघ राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में, केन्द्रीय बोर्ड का सदस्य-सचिव; और

(2) किसी राज्य के संबंध में, राज्य बोर्ड का सदस्य-सचिव;

(ग) “उपभोक्ता” से ऐसा व्यक्ति या स्थायी प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसके द्वारा धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उपकरण उस धारा की उपधारा (2) के अधीन संदेय है;

(घ) “प्रक्षुब्ध” से इन नियमों से उपाबद्ध प्राक्षुब्ध अभिप्रेत है;

(ङ) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(च) किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में “राज्य सरकार” से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त किया गया उसका प्रशासक अभिप्रेत है।

3. मीटरों के मानक और वे स्थान, जहाँ उन्हें लगाया जाना है:—

(1) उपयोग किए गए जल की मात्रा मापने और अभिलिखित करने के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक उपभोक्ता भारतीय मानक संस्थान द्वारा अधिकथित मानकों के अनुसूच सूचकों और अभिलेखितों सहित जल मीटर, बैटरी मीटर या ऑरिफ़िम मीटर लाएंगे और जहाँ उस संस्थान द्वारा कोई मानक अधिकथित नहीं किए गए हैं, वहाँ ऐसे मानकों के अनुरूप, जैसे बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) जहाँ उपधारा (1) में निर्दिष्ट मीटर उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ उपभोक्ता निर्धारण प्राधिकारी की अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के पश्चात्, सूचकों और अभिलेखितों या दाब प्रमाणों और पम्पिंग संस्थापनों सहित, जो खाने या आयताकार खाने लगाएंगे।

(3) प्रत्येक उपभोक्ता अधिनियम की अनुसूची 2 के स्तम्भ (1) में उल्लिखित चार प्रयोजनों में से प्रत्येक के लिए उपभोग में लिए गए जल की मात्रा के निर्धारण के लिए पृथक मीटर की व्यवस्था करेगा।

(4) मीटर उपभोक्ता के परिसर के भीतर जल प्रदाय कनेक्शनों के प्रवेश स्थल पर या किसी अन्य स्थान पर जो निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाए, लगाए जाएंगे जिससे कि निरीक्षण और अनुरक्षण के लिए और अधिनियम के अन्य प्रयोजनों के लिए ऐसे मीटरों तक सुगमता पूर्वक पहुँचा जा सके :

परन्तु यह स्थान जहाँ मीटर लगाया गया है, किसी भी वक्ता में, ऐसा स्थान नहीं होगा, जिसके पूर्व किसी भी प्रयोजनार्थ उपयोग के लिए उपभोक्ता द्वारा जल प्राप्त किया जाता है।

4. विवरणियाँ देना

प्रत्येक उपभोक्ता, प्रत्येक कलेन्डर मास की 5 तारीख को या उसके पूर्व, निर्धारण प्राधिकारी को पूर्वतन मास में उपभोग किए गए जल की मात्रा बतित करते हुए, प्ररूप 1 में एक विवरणी देगा।

5. केन्द्रीय सरकार को उपकर के संशोधन की रीति और वह समय जिसके भीतर उसका संशोधन किया जाएगा :

(1) प्रत्येक राज्य सरकार उपभोक्ता से उपकर की वसूल की गई रकम उस मास के, जिसमें वह उपभोक्ता से वसूल की गई है, ठीक अगले कलेन्डर मास की 10 तारीख के पूर्व केन्द्रीय सरकार को विप्रेषित करेगी।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट उपकर की रकम, सहायगी और सेवा अधिकारी, निर्माण और आवास मंत्रालय, नई दिल्ली के हक में तैयार किए गए बैंक ड्राफ्ट के रूप में केन्द्रीय सरकार को विप्रेषित की जाएगी और ऐसे अधिकारी की सेवा बहियों में ऐसी प्राप्तियों का अन्तिम रूप से समायोजन किया जाएगा।

(3) बैंक ड्राफ्ट के प्राप्त होने पर, निर्माण और आवास मंत्रालय, मुख्य शीर्ष के अधीन जमा करने के प्रयोजनार्थ भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में, बालान के माध्यम से, उसे विप्रेषित करेगा।

6. रिबेट : जहाँ कोई उपभोक्ता मल या व्यावसायिक बहिःस्त्राव के अधिक्रियण के लिए कोई संयंत्र लगाता है, वहाँ ऐसा उपभोक्ता उस तारीख से, जिसको ऐसा संयंत्र सकलतापूर्वक चालू किया जाता है और तब तक, जब तक वह सकलतापूर्वक कार्य करता रहता है, पन्द्रह दिन की समाप्ति की तारीख को और उससे, धारा 7 के अधीन रिबेट के लिए हकदार होगा।

7. धारा 9 के अधीन राज्य सरकार के अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ :

धारा 9 के अधीन विधिष्ठतः सशक्त किए गए राज्य सरकार के अधिकारी या प्राधिकारी को उस धारा के खण्ड (क) और (ख) में निर्दिष्ट शक्तियों के प्रतिरिक्त निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी अर्थात् :—

- (1) उपभोक्ता की विनिर्माण प्रक्रिया या संयंत्र का निरीक्षण करना ;
- (2) उपभोक्ता के सम्बन्ध में जल प्रदाय पद्धतियों और संस्थापनों का निरीक्षण करना ;
- (3) उपभोक्ता के सम्बन्ध में अपशिष्ट-उपचार-पद्धति और संस्थापनों का निरीक्षण

(4) उपभोक्ता के संयंत्र में जलनिकास पद्धति और संस्थापनों का जिसके अन्तर्गत संशुद्ध जल का व्ययन भी है, निरीक्षण करना ;

(5) उपभोक्ता के संयंत्र में सामग्रियों और जल के उपयोग और उपयोग से संबंधित और उत्पादन से संबंधित अभिलेखों को मंगाना और उनका निरीक्षण करना ;

(6) उपभोक्ता के संयंत्र में विद्युत के उपयोग से संबंधित अभिलेखों को मंगाना और उनका निरीक्षण करना ; और

(7) उपभोक्ता के संयंत्र में जल के प्रदाय, उपयोग और प्रतिक्रिया से संबंधित कोई अन्य जानकारी या अभिलेख मंगाना।

8. धारा 11 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने का प्राधिकार धारा 11 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने वाला प्राधिकारी, निर्धारण प्राधिकारी होगा।

9 अपील:—

(1) धारा 6 के अधीन किए गए किसी निर्धारण आदेश से या धारा 11 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने वाले किसी आदेश से व्यक्ति कोई उपभोक्ता समिति के (जिसे इसमें इसके पश्चात् अपील समिति कहा गया है), जिसमें निम्नलिखित होंगे, अपील हमसे उपाध्यक्ष प्ररूप 2 में कर सकेगा, अर्थात् :—

(क) जहाँ निर्धारण प्राधिकारी केन्द्रीय बोर्ड का सदस्य सचिव है, वहाँ उस बोर्ड का अध्यक्ष, जो समिति का अध्यक्ष होगा, और उस बोर्ड के दो सदस्य जो बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट किए जाएंगे ;

(ख) जहाँ निर्धारण प्राधिकारी राज्य बोर्ड का सदस्य सचिव है, वहाँ उस बोर्ड का अध्यक्ष, जो समिति का अध्यक्ष होगा और उस बोर्ड के दो सदस्य, जो उस बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट किए जाएंगे।

(2) ऐसी अपील में मामले के तथ्यों और ऐसे आधारों का उल्लेख होगा जिन का अपील करने के लिए अवलम्ब अपीलार्थी ने लिया है और उसके साथ यथास्थिति, धारा 6 के अधीन किए गए निर्धारण, आदेश या धारा 11 के अधीन शास्ति-अधिरोपित करने वाले आदेश का एक प्रति होगी।

(3) ऐसी अपील निर्धारण आदेश या अपीलार्थी पर शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेश की संसूचना की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर की जाएगी :

परन्तु यदि अपील समिति के अध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि अपील करने में विलम्ब के लिए अच्छा और पर्याप्त कारण था, तो वह ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जायेंगे, अपीलार्थी पर निर्धारण आदेश या शास्ति अधिरोपित करने वाले आदेश की संसूचना की तारीख से पूर्वोक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् किन्तु पैंतासीस दिन की समाप्ति के पूर्व, अपील करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(4) प्रत्येक अपील के साथ पचास रुपय फीस के दिए जाएंगे।

[सं० ४५० 17013/1/78-ई० पी० सी०]

मीर नसरुल्लाह, संयुक्त सचिव

प्ररूप 1

(नियम 4 देखिए)

मास के दौरान उपभोग किए गए जल की बाबत विवरणी

उपभोक्ता का नाम और पता	किस प्रयोजन के लिए जल का उपयोग किया गया है	रिपोर्ट के अधीन कलेक्टर मास के प्रथम दिन के प्रारम्भ पर रीडिंग	रिपोर्ट के अधीन कलेक्टर मास के अन्तिम दिन की समाप्ति पर रीडिंग	उपभोग में लिए गए जल की मात्रा (कि०लि०)	यदि मीटर खराब था तो कार्य अवधि के पूर्वतन 3 मास के दौरान जल का मासिक औसत उपभोग	निर्धारित के अनुसार रिबेट के लिए अर्हक जल की मात्रा	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8
	1. खान गरी या बायलर फीड में औद्योगिक शीतल छिड़काव	(i) नगरपालिका के जल प्रदायन से (ii) कूप/नलकूप से (iii) नहर से (iv) नदी से (v) किसी अन्य स्रोत से					स्तम्भ 7 के अधीन रिबेट का दावा करने के लिए निर्धारित, इस स्तम्भ में अपने दावे के समर्थन में इस विवरणी से उपाबन्ध विमलेशणात्मक और अन्य रिपोर्ट उप-दर्शित करेगा।
	2. बरेलू प्रयोजन	(i) नगरपालिका के जल प्रदायन से (ii) कूप/नलकूप से (iii) नहर से (iv) नदी से (v) किसी अन्य स्रोत से					
	3. प्रसंस्करण, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है और प्रदूषक सुगमता पूर्वक जैव निम्नीकरण योग्य है।	(i) नगरपालिका के जल प्रदायन से (ii) कूप/नलकूप से (iii) नहर से (iv) नदी से (v) किसी अन्य स्रोत से					
	4. प्रसंस्करण, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है और प्रदूषक सुगमता पूर्वक जैव निम्नीकरणीय नहीं है तथा विषाक्त है।	(i) नगरपालिका के जल प्रदायन से (ii) कूप/नलकूप से (iii) नहर से (iv) नदी से (v) किसी अन्य स्रोत से					

उपभोक्ता के हस्ताक्षर

नाम

पता

प्ररूप 1 का उपाबन्ध

..... मास के लिए अभिक्रियण संयंत्र का कार्य वशित कराते हुए अभिक्रियागत बहिःस्नाण के विवलेषण की रिपोर्ट

नमूने का संग्रहण तारीख को किया गया।

नमूने का परीक्षण तारीख को किया गया।

परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा किया गया।

क्रम संख्या	जले (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 के अधीन दी गई सङ्गमति के अधीन अधि-रोपित शर्तों में यथा उल्लिखित प्रदूषण प्राचल (पैरामीटर)	सङ्मत शर्त के अनुसार अनु-ज्ञात अधिकतम अनुज्ञेय सीमाएं या रेंज	रिपोर्ट के अनुसार प्राचल की सांद्रता या रेंज	वे तारीखें जिनको संयंत्र में रुकावट या खराबी हुई	न्यून कार्य की जानकारी हुई
1	2	3	4	5	6

संस्करण पत्र : प्रयोगशाला की मूल विवलेषण रिपोर्ट

हस्ताक्षर
तारीख
नाम
पता

प्ररूप 2

(नियम 9 देखिए)

(अपील के ज्ञापन का प्राचल)

..... के समक्ष

यहां प्राधिकारी का नाम और पबनाम लिखें

जले (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 की धारा 13 के अधीन अपील का ज्ञापन।

19 की अपील सं०

.....
.....
.....
.....
(यहां पूरा डाक पता लिखें)

बनाम

.....
.....
.....

(यहां निर्धारण प्राधिकारी का नाम और पबनाम लिखें)-----

..... अपीलार्थी

..... प्रत्यर्थी

ऊपर नामित अपीलार्थी ने, निम्नलिखित तथ्यों और आधारों पर, ने, तारीख को द्वारा किए गए आदेश के विरुद्ध यह अपील, ज्ञापन प्रस्तुत किया है।

तथ्य

(यहाँ पर संक्षेप में मामले के तथ्य लिखें)

आधार

(यहाँ वे आधार लिखें, जिन पर अपील की गई है)

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

प्रार्थना

उपरोक्त के प्रकाश में अपीलार्थी सादर प्रार्थना करता है कि उसे उपकर के संदाय से छूट दी जाए;

उसे अतिनियम में यथा उपबन्धित 70 प्रतिशत की रिबेट अनुज्ञात की जाए और उपकर की रकम घटा कर ६० कर दी जाए;

उपकर की रकम का निर्धारण सही नहीं है और उसे घटा कर ६० कर दिया जाए;

उसपर सर्वोष शास्ति अधिरोपित की गई है अतः उसे अपास्त कर दिया जाना चाहिए।

उस पर अधिरोपित शास्ति अस्वाधिक है और उसे यथा कथित तथ्यों के आधार पर उपयुक्ततः कम कर दिया जाना चाहिए।

2. रसीद सं० तारीख के अनुसार इस अपील की फीस के रूप में ६० (..... रुपए) को रकम का संदाय कर दिया गया है।

स्थान

तारीख

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

नाम

पता

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 1978

G.S.R. 378(E).—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Cess Act, 1977 (36 of 1977), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(a) These rules may be called the Water (Prevention and Control of Pollution) Cess Rules, 1978;

(b) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires:—

(a) "Act" means the Water (Prevention and Control of Pollution) Cess Act, 1977 (36 of 1977);

(b) "assessing authority" means—

(i) in relation to Union Territory, the member-secretary of the Central Board; and

(ii) in relation to a State, the member-secretary of the State Board;

(c) "consumer" means a person or local authority by whom the cess under sub-section (1) of section 3 is payable under sub-section (2) of that section;

(d) "form" means a form annexed to these rules;

(e) "section" means a section of the Act;

(f) "State Government", in relation to a Union Territory, means the Administrator thereof appointed under article 239 of the Constitution.

3. Standards of meters and places where they are to be affixed.—(1) For the purposes of measuring and recording the quantity of water consumed, every consumer shall affix water meters, venturi meters or Orifice meters with integrators and recorders in conformity with the standards laid down by the Indian Standards Institution and where no standards have been laid down by that institution in conformity with such standards as may be specified by the Board.

(2) Wherever the meters referred to in sub-section (1) are not available, the consumer shall instal Vee notches or rectangular notches, with indicators and recorders or pressure gauges and pumping installations, after obtaining the permission of the assessing authority.

(3) Every consumer shall provide a separate meter for assessing the quantity of water used for each of the four purposes mentioned in column (1) of Schedule II to the Act.

(4) The meters shall be affixed at the entrance of the water supply connections within the premises of the consumer or at any other place to be approved by the assessing authority, so that such meters are easily accessible for inspection and maintenance and for other purposes of the Act:

Provided that the place where is affixed shall, in no case, be at a point before which water has been tapped by the consumer for utilisation for any purpose whatsoever.

4. Furnishing of returns.—Every consumer shall furnish on or before the 5th of every calendar month, to the assessing authority, a return in Form I showing the quantity of water consumed in the previous month.

5. Manner of payment of the cess to the Central Government and the time within which it shall be paid.

(1) Every State Government shall remit to the Central Government, the amount of cess collected from the consumer before the 10th day of the calendar month succeeding the month in which it is collected from the consumer.

(2) The amount of cess referred to in sub-rule (1) shall be remitted to the Central Government in the form of a bank

draft drawn in favour of the Pay and Accounts Officer, Ministry of Works and Housing, New Delhi in whose books of accounts, the receipts would be adjusted finally.

(3) On receiving the bank draft, the Ministry of Works and Housing shall remit the same through a Challan into the Reserve Bank of India, New Delhi, for the purpose of crediting under relevant Major Head.

6. Rebate.—Where a consumer installs any plant for the treatment of sewage or trade effluent, such consumer shall be entitled to the rebate under section 7 on and from the expiry of fifteen days from the date on which such plant is successfully commissioned and so long as it functions successfully.

7. Powers to be exercised by the Officer or the Authority of the State Government under section 9.

The officer or authority of the State Government specially empowered under section 9 shall have, in addition to the powers referred to in clauses (a) and (b) of that section, the power to :—

- (i) inspect the manufacturing process or plant of the consumer ;
- (ii) inspect the water supply systems and installations in the plant of the consumer ;
- (iii) inspect waste treatment system and installations in the plant of the consumer ;
- (iv) inspect the drainage system and installations, including storm water disposal in the plant of the consumer ;
- (v) call for and inspect records relating to the use and consumption of materials and water, and those relating to production, in the plant of the consumer ;
- (vi) call for and inspect the records relating to power consumption in the plant of the consumer ; and
- (vii) call for any other information or records relating to the supply, consumption and treatment of water in the plant of the consumer.

8. Authority to impose penalty under section 11.—The authority to impose penalty under section 11 shall be the assessing authority.

9. Appeal.—(1) Any consumer aggrieved by an order of assessment made under section 6 or by an order imposing penalty made under section 11 may appeal in Form II annexed hereto, to a Committee (hereinafter referred to as the appellate committee) consisting of—

- (a) where the assessing authority is the member-secretary of the Central Board, the Chairman of that Board, who shall be the Chairman of the Committee, and two members of that Board, to be nominated by the Chairman thereof ;
- (b) Where the assessing authority is the member-secretary of the State Board, the Chairman of that Board, who shall be the Chairman of the Committee, and two members of that Board, to be nominated by the Chairman thereof.

(2) Such appeal shall state the facts of the case and the ground relied upon by the appellant for preferring the appeal and shall be accompanied by a copy of the order of assessment made under section 6 or a copy of the order imposing penalty made under section 11, as the case may be.

(3) Such appeal shall be preferred within a period of thirty days from the date of communications of the order of assessment or the order imposing penalty on the appellant :

Provided that if the Chairman of the appellate Committee is satisfied that there was good and sufficient reason for the delay in preferring the appeal, he may, for reasons to be recorded in writing, allow the appeal to be preferred after the expiry of the aforesaid period of thirty days and before the expiry of forty-five days from the date of communication of the order of assessment, or the order imposing penalty, on the appellant.

(4) Every appeal shall be accompanied by a fees of rupees fifty.

[No. Q. 17013/1/78-EPC]

MIR NASRULLAH, Jt. Secy.

FORM I

(See rule 4)

Return regarding Water consumed during the month of.....

Name and Address of the consumer	Purpose of which water consumed	Reading at the beginning of the first day of the calendar month under report.	Reading at the end of the last day of calendar month under report.	Quantity of water consumed in Kilo litres.	If the meter was out of order the average consumption of water for the previous 3 months of the working period.	Quantity of water qualifying for rebate according to the assessee	Remarks (*)
1	2	3	4	5	6	7	8
	1. Industrial cooling spraying in mine pits or boiler feed.	(i) from Municipal water supply mains (ii) from well/tubewell (iii) from Canal (iv) from river (v) from any other source.					
	2. Domestic purpose.	(i) from Municipal water supply mains. (ii) from well/tubewell (iii) from Canal (iv) from river (v) from any other source.					

1	2	3	4	5	6	7	8
	3. Processing whereby water gets polluted and the pollutants are easily bio-degradable.	(i) from Municipal water supply mains (ii) from well/tubewell (iii) from Canal (iv) from river (v) from any other source.					
	4. Processing whereby water gets polluted and the pollutants are not easily bio-degradable and are toxic.	(i) from Municipal water supply mains (ii) from well/tubewell (iii) from Canal (iv) from river (v) from any other source.					

(*) for claiming rebate under col. 7 the assessee shall indicate in this column the analytical and other reports annexed to this return in support of this claim.

Signature of the consumer

Name

Address

ANNEXURE TO FORM I

Report of Analysis of treated effluent showing performance of the treatment plant—For the month of

Sample collected on

Sample tested on

By the laboratories

S.No.	Polluting parameters as mentioned in the conditions imposed under consent granted under section 25/26 of the Water (Prevention and Control of Pollution), Act, 1974	Maximum permissible limits or ranges allowed as per consent condition	Concentration of range of parameters as per report	Dates on which	
				There was break-down or failure of the plant	On which under-performance was noticed
1	2	3	4	5	6

Encl. : Original Analysis report of Laboratory.

Signature

Date

Name

Address

FORM II

(Sec rule 9)

(FORM OF MEMORANDUM OF APPEAL)

Before.....(**).....

here mention the name and designation of the authority.

Memorandum of appeal under section 13 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Cess Act, 1977.
Appeal No.....of 19

(here furnish complete postal address)

Vs.

(here mention the name and designation of assessing authority).

.....Appellant

.....Respondent

The appellant named above, begs to prefer this memorandum of appeal against the order dated passed by on the following facts and grounds :

FACTS

(here briefly mention the facts of the case)

GROUND

(here mention the grounds on which the appeal is made)

1.

2.

3.

4.

(*) here mention the name and designation of the authority.

PRAYER

In the light of what is stated above, the appellant respectfully prays that he/she/it may be exempted from the payment of Cess.

he/she/it may be allowed a rebate of 70 per cent as provided for in the Act and the amount of Cess reduced to Rs.

the amount of Cess has not been correctly assessed and that it may be reduced to Rs.

the penalty imposed on him/her/it has been wrongfully imposed and should be set aside.

the penalty imposed on him/her/it is excessive and should be suitably reduced on the basis of the facts as stated.

2. The amount of Rs. (Rupees.....) as fee for this appeal has been paid to vide Receipt No.....

dated.....

Place :

Date :

Signature of the Appellant

Name

Address.

